



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 1977, आषाढ़ 28, 1899

No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 1977/ASADHA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July 1977

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 namely —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:—

“8-A—Pay of members of the Indian Frontier Administrative Service appointed to hold posts enumerated in Schedule III

Notwithstanding anything contained in these rules, a member of the Indian Frontier Administrative Service recruited to that Service prior to the 1st January, 1968 and appointed to hold a post specified in Schedule III shall, for so long as he holds that post, be entitled to draw the pay indicated for that post in the said Schedule.”

[No. 11030/9/77-AIS (II)]

K. L. NEGI, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1977

सा० का० लि० 531(प्र).—अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) सातवा संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में नियम 8 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

“8-क—अनुसूची III में दिए गए पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के सदस्यों का वेतन

इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का कोई सदस्य, जिसे 1-1-1968 से पहले उक्त सेवा में भर्ती किया गया हो और अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो, जब तक उक्त पद पर कार्य करेगा तब तक उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उस पद का वेतन लेन का हकदार होगा।”

[स० 11030/9'77-अ०भा०से०(II)]

के० एल० नेगी, अव्वर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977